


Types of Money (मुद्रा के प्रकार)




② Commercial Bank's Money } → M1 & M3

③ Narrow Money

(संकीर्ण मुद्रा /
वंग मुद्रा)
(संकुचित)

M1



④ Broad Money

(व्यापक / स्थूल
मुद्रा)

M3



Note: → In India, The main method of measuring money supply → M3

⑤ Dear/tight money
(मंहगी मुद्रा) → Higher Rate of Interest.

मुद्रा → मंहगे व्याज दर

⑥ Cheap Money
(सस्ती मुद्रा) → Lowered Interest Rate
सस्ते व्याज दर

सेंट्रल बैंक मनी बनाम वाणिज्यिक बैंक मनी

Central Bank Money vs Commercial Bank Money

1. सेंट्रल बैंक मनी **Central bank money = M0**
2. वाणिज्यिक बैंक मनी **Commercial bank money = M1 & M3**

TYPES OF MONEY



**Narrow
Money**
(संकीर्ण मुद्रा)



Broad Money
(व्यापक मुद्रा)

TYPES OF MONEY


An orange circle containing text.

**Dear / Tight
Money
(महंगी मुद्रा)**

A green circle containing text.

**Cheap Money
(सस्ती मुद्रा)**

Value of Currency (क़रेंसी का मूल्य)



TYPES OF MONEY

⑦

✓
**Full Bodied
Money**
(पूर्ण मूल्य
मुद्रा)


⑧

✓
**Commodity
Money**
(वस्तु मुद्रा)

✓
Token Money
(प्रतीक मुद्रा)

⑦ Full Bodied
Money
(पूर्ण शरीर मुद्रा)


$$\underline{IV} = \underline{EV}$$



⑧ Token Money $\rightarrow \underline{IV} < \underline{EV}$
(प्रतीक मुद्रा)

Seigniorage

सरकार के द्वारा Currency जारी करने प्राप्त किया गया लाभ



बैतु का मूल्य

Govt. के द्वारा जारी किया

Value of coin $\Rightarrow ₹100$

Cost of Producing cost $\Rightarrow ₹20$

Seigniorage $= 100 - 20 = ₹80$ ✓

⑨ Commodity Money

वस्तु / प्रत्येक /

पुण्य मुद्रा

→ Gold Coin

→ Sea shells
समुद्री शेल

Gold


~~Silver~~

Face value = 1000 Rs
Value of silver = 1000 Rs



Full-bodied money


Copper




Face value = 10 Rs
Value of Copper = 2 Rs

Token money

TYPES OF MONEY



The Gresham's Law: Bad money vs. Good money



“Bad Money drives Good Money out of circulation”

“खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है”

TYPES OF MONEY

12

Fiat Money
(प्रादिष्ट मुद्रा)

Fiduciary
Money
(प्रत्ययी मुद्रा)

⑫ Fiat Money (प्रदिव्य मुद्रा)

Fiat $\Rightarrow$ Order

Ordered by govt.

प्रत्येक व्यक्ति $\rightarrow$ Bind (बाध्य)

$\downarrow$
Money $\rightarrow$ Medium of Exchange

Currency

⑬ Fiduciary Money → Trust / Faith
(सिद्धि वृद्धि) → Cheque

⑭ Near Money /
Quasi Money
(निकट / अर्ध मुद्रा)

↓
Ex. FD & RD

→ वह मुद्रा
जो मगद में परिवर्तन
होने के लिए
छोड़ा समय लेती है

⑮ Hot Money
(चलायमान / गर्म
मुद्रा)

↳ \$, Euro, £,
Yen, Yuan

⑯ Hard Money
(दुर्लभ)

⑰ Soft Money
(सुलभ)

⑪ Plastic Money

→ Debit &
Credit Card

⑩ Virtual Money (आभासी मुद्रा)

↳ Internet पर आधारित
मुद्रा

↳ Eq. Crypto - & Central Bank
Currency Digital Currency (CBDC)
(Bitcoin) → (e₹)

Bitcoin

- Crypto Currency
- Blockchain पर आधारित है
- 2008 → Satoshi Nakamoto
- 2018 → RBI ने भारत में Cryptocurrency के लेन-देन पर Ban लगा दिया था लेकिन 2020 में SC ने इस प्रतिबंध हटा दिया।
- El-Salvador

Central Bank Digital Currency (CBDC)

It is transacted
by using wallet
backed by Blockchain

→ Issued by RBI

→ also known as → (e₹) / Digital Rupee

→ RBI ने CBDC को Pilot अंश पर जारी किया है → Testing

'SWIFT
Code'

→ Reduces
the
Cross-Border
Transaction
Cost.


Retail CBDC

Dec. 2022

→ Digital form of Paper Currency
→ It is a legal tender Money.

Wholesale CBDC

Nov. 2022



₹

Note:

① Bahamas → First Country
↓
2020 में

② Nigeria → Sand Dollar
eNaira (2020)

③ China → Apl. 2020 → e-CNY

D/f b/w Cryptocurrency & CBDC

Legal tender in India

Not legal tender in India

Controlled by Individual or Private Co.

Controlled by Central Bank

CBDC
Blockchain पर आधारित
Centralised
केंद्र. ↓
जिसका विनियमन
किसी प्राधिकरण
के द्वारा होता है

Cryptocurrency
Blockchain

Decentralised (वि.)
Which is not regulated by any Authority

TYPES OF MONEY



Hot Money
(चलायमान
मुद्रा)



Hard Money
(कठोर मुद्रा)



Soft Money
(सुलभ मुद्रा)